

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 4 जनवरी 2024-पौष 14, शक 1945

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2024

फा. क्र. 07-2024-इक्कीस-ब(दो).- राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्रदेश के मुरैना, ग्वालियर सिंगरौली, अनूपपुर, मंडला, बालाघाट, सिवनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, कटनी, बैतूल, देवास, झाबुआ, धार, रतलाम, मंदसौर, भिंड एवं अलीराजपुर जिले के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा प्रेषित प्रस्ताव संलग्न सूची के अंतर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों को त्रि-स्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2023 का कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है, और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां अधिसूचना जारी होने के दिनांक से मतदान प्रक्रिया समाप्त होने तक के लिए प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धर्मपाल सिंह सिवाच, सचिव.

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), जिला मुरैना
मध्यप्रदेश

क्र.-स्था. निर्वाचन-2023 (उत्तरांच) हेतु कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की शक्तियों प्रदाय किये जाने वाले अधिकारियों की सूची

क्रमांक	जनपद पंचायत का नाम	अधिकारी का नाम व पद	विभाग का नाम	संबंधित क्षेत्र	टिप्पणी
1	अम्बाह	श्री शैलेश शर्मा, पशु शल्य चिकित्सक मुरैना	पशु शल्य चिकित्सक मुरैना	लल्लूबसई	
2	अम्बाह	श्री एम.पी. शर्मा, सहायक यंत्री	जनपद पंचायत अम्बाह	रिठौना	
3	अम्बाह	श्री बृजेन्द्र सिंह परमार, सचिव	कृषि उपज मण्डी अम्बाह	भडौली	
4	पोरसा	श्री संदीप सिंह तोमर, प्राचार्य	शा. हाई स्कूल कीचौल	करसंडा, खेरली पोरसा	
5	पोरसा	श्री हरगोविंद सिंह तोमर, प्राचार्य	शा. हाई स्कूल रैपुरा	रैपुरा, धर्मगढ, बडापुरा	
6	सबलगढ	श्री महेन्द्र कुमार अटल, प्रभारी प्राचार्य	शा. उ.मा.वि. टैटरा	कैमराखुर्द, कीरतपुर, नौरावली	
7	सबलगढ	श्री पवन गोस्वामी, उ.मा. शि.	शा. उ.मा.वि. जीनुफील्ड सबलगढ	शिवलालपुरा, सालई, धरसोला	
8	पहाडगढ	श्रीमती आरती सेगर, उपयंत्री	कार्यालय जनपद पंचायत पहाडगढ	शा.हाई स्कूल वरेंड, इशा. शाला भवन गुजरना, इशा. हाई स्कूल गुजरना	
9	पहाडगढ	श्री संजय राव, उपयंत्री	कार्यालय जनपद पंचायत पहाडगढ	76 शिक्षा गारंटी शाला भवन शेरपुर	
10	पहाडगढ	श्री रकेश देपुरीया, उपयंत्री	कार्यालय जनपद पंचायत पहाडगढ	147 शा. प्रा. वि. अगरोता	
11	पहाडगढ	श्री सचिन चौहान, उपयंत्री	कार्यालय जनपद पंचायत पहाडगढ	218 सामुदायिक भवन निरार	
12	कैलारस	श्री ब्रजेश आर्य, उपयंत्री	जनपद पंचायत कैलारस	किरावली जदीद	
13	कैलारस	श्री मंजर अली शाह, उपयंत्री	जनपद पंचायत कैलारस	देवरी	
14	कैलारस	श्री अरविंद कुशवाह, उपयंत्री	जनपद पंचायत कैलारस	निरारा	
15	कैलारस	श्री गुलाब सिंह धांकड, उपयंत्री	जनपद पंचायत कैलारस	लाभकरन	

क्रमांक	जनपद पंचायत का नाम	अधिकारी का नाम व पद	विभाग का नाम	संबंधित क्षेत्र	टिप्पणी
16	कैलारस	श्री शैलेन्द्र सिंह धाकड़, उपयंत्री	जनपद पंचायत कैलारस	रिजर्व	
17	जौरा	श्री राजकिशोर शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक	कन्या हा.से. स्कूल जौरा	मई, बघोराकला, सकतपुर, मजरा, नरहेला	
18	जौरा	श्री जे.के. गुप्ता, व्याख्याता	बॉयज हा.से. स्कूल जौरा	खनेता, घुरैयावसई, पहावली, अटा, निटहरा	
19	जौरा	श्री सुमनलाल शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक	बॉयज हा.से. स्कूल जौरा	अलापुर, धरा, डोंगरपुर, चचेहा, छैरा, इमलिया	
20	जौरा	श्री हेमंत पाराशर, वरिष्ठ अध्यापक	बॉयज हा.से. स्कूल जौरा	उरहेडी, नंदगांगोली, सैसोली, सिहोरी	
21	जौरा	श्री संजय शर्मा, वरिष्ठ अध्यापक	बॉयज हा.से. स्कूल जौरा	विरुगा, गणेशपुरा, लोहावसई	
22	मुरैना	श्री एल0डी0तोमर उपयंत्री	जनपद पंचायत मुरैना	जारह, मसूदपुर, भानपुर, मैथाना	
23	मुरैना	श्री रामनरेश बरूआ प्राचार्य	शा0हा0स्कूल पिपरसा	पचोखरा, पीपरखेडा, जतावर	
24	मुरैना	डॉ एस0एस0 तोमर प्राचार्य	शा0हा0स्कूल हिगोना	हिगोनाकला, हिगोनाखुर्द	
25	मुरैना	श्री सुरेश शाक्य उपयंत्री	जनपद पंचायत मुरैना	डोंगरपुरकिशर, रामपुरगंज, खबरौली, खेडामेवदा,	
25	मुरैना	श्री डी0एस0कंधाना उपयंत्री	जनपद पंचायत मुरैना	अजनौधा, डोंगरपुरलोधा, सुरजनपुर, बसईया	
27	मुरैना	श्री प्रवीण वर्मा उपयंत्री	जनपद पंचायत मुरैना	नगरा, किशनपुर, नाका, कोतवाल, जगतपुर	
28	मुरैना	श्री ए0एल0 राजपूत उपयंत्री	जनपद पंचायत मुरैना	मदनबसई, जयनगर, बरेपडा, गिरगौनी	
29	मुरैना	श्री भरत बाबुल उपयंत्री	जनपद पंचायत मुरैना	जारौनी, करुआ, जरेरुआ, चुरहेला	

	अधिकारी का नाम व पद	विभाग का नाम	संबंधित क्षेत्र	टिप्पणी
	श्री राजेश भारद्वाज उपयंत्री	जनपद पंचायत मुरैना	दौरावली, जखौदा, से वा	
	श्री नरेन्द्र सिंह गुर्जर उपयंत्री	जनपद पंचायत मुरैना	महटोली, खरगपुर, करौला, पारोली, शन्सू	
32	श्री राजवीर सिंह परमार उपयंत्री	जनपद पंचायत मुरैना	बमरोली, सांगोली, अरदोनी, भेसोरा, पढावली	
33	श्री एस0एस0 तिवारी प्राचार्य	संकुल रिठौराकला	नौगांव, बडवारी, टीकर ी, पिपरसेवा, गडाजर,	
34	श्री संतोष सेंगर प्राचार्य	संकुल बामोर	पहाडी, बामोरखुर्द, मडराई	
35	श्री बाई एस जादौन प्राचार्य	शा0जी0डी0जैन मुरैना	गंजरामपुर, इमलिया	
36	श्री अशोक डण्डौतिया प्राचार्य	संकुल मुरैना गांव	कैथोदा, मुगावली,	

उप जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय कलेक्टर, एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ग्वालियर, मध्यप्रदेश

क्र.-क्यू-स्था.निर्वा.-11-24-26-2023-919

ग्वालियर, दिनांक 18 दिसम्बर 2023

विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में पंचायत उप निर्वाचन वर्ष-2023 (उत्तरार्द्ध) हेतु विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदत्त करने हेतु रिटर्निंग अधिकारियों से प्राप्त प्रस्ताव निम्नानुसार है :-

क्रमांक	जनपद पंचायत का नाम	सेक्टर अधिकारी	पदनाम एवं पदस्थापना
1	घाटीगांव (बरई)	श्री शशिभूषण श्रीवास्तव	बीआरसीसी, घाटीगांव
2		श्री सीताराम दण्डोतिया	बीईओ, घाटीगांव
3		डॉ. अवनीश शर्मा	पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी, घाटीगांव
4		श्री बी.के. गुप्ता	अनुविभागीय अधिकारी जलसंसाधन, घाटीगांव
5		श्री दिलीप कटारिया	एसएडीओ, कृषिघाटीगांव
6		भितरवार	श्री ओ.पी. सिंह
7	श्री नरहरी मिश्रा		विकास खण्ड स्त्रोत समन्वयक जनपद शिक्षाकेन्द्र भितरवार
8	श्री वाय.एस. परिहार		उपयंत्री आरईएस भितरवार
9	श्रीमती मिनी चन्देरिया		उपयंत्री आरईएस भितरवार
10	डॉ. बी.एल. स्वर्णकार		पशु चिकित्सा अधिकारी भितरवार
11	डबरा	श्री यतीता धाकड	परियोजना अधिकारी आई.सी.डी.एस. डबरा
12		श्री विवेक कुमार चोकटिया	विकास खण्ड स्त्रोत समन्वयक जनपद शिक्षाकेन्द्र डबरा
13		श्री दीपक मोर्य	सहायक यंत्र लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग डबरा
14		श्रीमती आर.एस.दुवे	प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपखण्ड डबरा
15		डॉ. महेन्द्र सिंह	प्रभारी अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपखण्ड क्रमांक 01 डबरा
16		श्री अतर सिंह अहिरवार	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी डबरा
17		श्री रविन्द्र सिंह कुशवाह	वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी
18		मुरार	श्री राजेन्द्र सिंह
19	श्री बी.डी. भगरेया		एसडीओ उद्योगिकी कृषि मुरार
क्रमांक	जनपद पंचायत का नाम	सेक्टर अधिकारी	पदनाम एवं पदस्थापना
20	मुरार	श्री सुनील शर्मा	परियोजना अधिकारी, म.बा.वि. मुरार
21		श्री राजेन्द्र सिंह	सहायक मत्सय उद्योग अधिकारी मुरार
22		श्री हरिशंकर शाक्य	बीआरसीसी शिक्षा मुरार
23		श्री अनमोल कोचर	सहायक यंत्री पीएचई मुरार
24		श्री महेन्द्र सिंह कुशवाह	सहायक यंत्री पीडब्ल्यूटी मुरार

(अक्षय कुमार सिंह)

कलेक्टर

एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला ग्वालियर (म.प्र.)

**कार्यालय कलेक्टर, एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था.निर्वा.) जिला सिंगरौली,
मध्यप्रदेश**


क्र.-499-स्था.निर्वा.-2023

सिंगरौली, दिनांक 19 दिसम्बर 2023

विषयांकित के संबंध में संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायत उप निर्वाचन वर्ष-2023 (उत्तरार्द्ध) हेतु विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान करने हेतु प्रस्ताव चाहा गया है। जो निम्नानुसार है:-

क्र.	सेक्टर ऑफिसर के नाम, पद नाम एवं विभाग का नाम	मो. न.	प्रस्तावित सेक्टर अधिकारी
1	श्री मनोज बाथम कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा विभाग सिंगरौली	9669122424	विकास खण्ड बैढन
2	श्री समीर गौहर महाप्रबंधक म.प्र. रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड सिंगरौली	7828898288	विकास खण्ड बैढन
3	श्री एच. एल. निमोरिया, सहायक संचालक, उद्यानकी विभाग सिंगरौली	9893598459	विकास खण्ड बैढन
4	श्री आर. पी. शाह सहायक यंत्री जल संसाधन विभाग सिंगरौली	9630775421	विकास खण्ड बैढन
5	श्री विपिन कुमार पाण्डेय सहायक यंत्री लोक निर्माण विभाग पी.आई. यू. सिंगरौली	7974338311	रिजर्व
6	श्री आर. पी. कोल कार्यपालन यंत्री हाउसिंग बोर्ड सिंगरौली	9425607387	विकास खण्ड देवसर
7	श्री अनिल कुमार घोष, सहायक प्रबंधक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क परियोजना सिंगरौली	8965853090	विकास खण्ड देवसर
8	श्री सतेन्द्र सोधिया परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास चितरंगी सिंगरौली	8085833628	विकास खण्ड चितरंगी
9	श्री शैलेन्द्र साकेत परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास सिंगरौली	9617772498	रिजर्व
10	श्री आर. पी. सिंह परियोजना अधिकारी महिला बाल विकास अधिकारी सिंगरौली	9755871642	रिजर्व

अतः त्रि-स्तरीय पंचायत उप निर्वाचन वर्ष-2023 (उत्तरार्द्ध) हेतु विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान करने हेतु चाही गई जानकारी निर्धारित प्रपत्र में तैयार कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।


 कलेक्टर सिंगरौली
 एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
 (स्था. निर्वा.)
 जिला सिंगरौली (म.प्र.)

कार्यालय कलेक्टर, एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश

क्र.-1881-23ई-उत्तरार्द्ध निर्वा.-म.द.-2023

अनूपपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2023

त्रि-स्तरीय पंचायत उप निर्वाचन वर्ष 2023 (उत्तरार्द्ध) के सफल संचालन हेतु, संदर्भित पत्र द्वारा राजस्व सेवा संवर्ग के अधिकारियों के अतिरिक्त, अन्य सेवाओं के अधिकारियों को निर्वाचन के दौरान सेक्टर मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करने हेतु निर्धारित प्ररूप में जानकारी चाही गई।

अतः निर्धारित प्ररूप में जानकारी तैयार कर अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है

स.क्र.	अधिकारी का नाम	पद नाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।
1	2	3	4	5	6
1	श्री समरजीत सिंह साकेत	उपयंत्री	जल संसाधन विभाग अनूपपुर जिला अनूपपुर म0प्र0	3	जनपद पंचायत अनूपपुर
2	श्री किशोरी कुमार कोष्टी	उपयंत्री	ग्रामीण या0 सेवा पुष्पराजगढ़	3	जनपद पंचायत अनूपपुर
3	श्री अरविन्द्र कुमार सिंह	उपयंत्री	लोक निर्माण विभाग अनूपपुर	3	जनपद पंचायत कोतमा
4	श्री शिवराम	उपयंत्री	नगर परिषद-डूमरकछार	3	जनपद पंचायत कोतमा
5	श्री अवधेश सिंह तिवारी	उपयंत्री	जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़	3	जनपद पंचायत जैतहरी
6	श्री अशोक कुमार परस्ते	उपयंत्री	जल संसाधन विभाग अनूपपुर	3	जनपद पंचायत जैतहरी
7	श्री दीपक साहू	उपयंत्री	लोक स्वस्थ यांत्रकी जैतहरी	3	जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़
8	श्री अमन डहेरिया	उपयंत्री	ग्रामीण या0 सेवा पुष्पराजगढ़	3	जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़

अपर कलेक्टर
एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला-अनूपपुर (म.प्र.)

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था.) मण्डला, मध्यप्रदेश

क्र.-स्था.निर्वा.-उप.निर्वा.पंचा.2023-220

मण्डला, दिनांक 26 दिसम्बर 2023

//आदेश//

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा पंचायतों के उप निर्वाचन-2023 (उत्तरार्द्ध) के लिए जारी कार्यक्रम के अनुसार मतदान दलों को मतदान कार्य संपादित करने के लिए सामग्री वितरण स्थल से मतदान केन्द्र तक पहुंचाने एवं मतदान पश्चात् वापसी स्थल तक आने की ओके रिपोर्ट भेजने, मतदान दिवस में मतदान केन्द्रों में सतत निगरानी रखने, मतदान की समय-समय पर रिपोर्ट भेजने, मतदान केन्द्र में होने वाली मतगणना की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने, किसी आकस्मिक घटना एवं बूथ केज्वरिंग आदि की रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था.) मण्डला एवं संबंधित रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) को भेजने तथा अन्य समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित कर सम्पूर्ण मतदान कार्य को निर्विवाद रूप से सम्पन्न कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु जनपद पंचायत मण्डला के लिए निर्मांकित तालिका के कॉलम 03,04, में दर्शाये अनुसार ग्राम पंचायत के मतदान केन्द्रों के लिए तालिका के कॉलम 02 में अंकित अधिकारियों को जोनल अधिकारी (सेक्टर) नियुक्ति किया जाता है:-

क्र.	नियुक्त जोनल (सेक्टर) आफिसर का नाम पदनाम, मो.नं. व कार्यालय का पता	ग्राम पंचायत का नाम	मतदान केन्द्र क्रमांक एवं नाम	कुल मतदान केन्द्रों की संख्या	थाना क्षेत्र का नाम
1	2	3	4	5	6
1	श्री मूलचंद मरावी, सहायक पंजी नर्मदा विकास क्रमांक-2 मण्डला मो.नं. 9131374576	बिनैका ग्वारा	75.बा.प्रा.शा.भवन बिनैका 233.मा.शा.भवन ग्वारा	01 01	मण्डला

विशेष निर्देश -

01. पंच पद के लिए मतदान मतपेटी से होगा। जारी कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 05.01.2024 को मतदान कार्य हेतु प्रातः 7.00 बजे से शाम 3.00 बजे तक का समय निर्धारित है। अतः नियुक्त अधिकारी अपने मतदान केन्द्रों में मतदान कार्य हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करावेंगे तथा मतदान समाप्ति के पश्चात् सीलबंद ईव्हीएम मशीनों एवं अन्य महत्वपूर्ण निर्वाचन सामग्री को सुरक्षित निर्धारित स्ट्रॉंग रूम में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। विद्युत बिच्छेद की स्थिति में समुचित प्रकाश हेतु सभी मतदान केन्द्रों में विद्युत की वैकल्पिक व्यवस्था अनिवार्य रूप रखी जावे।
02. नियुक्त अधिकारी मतदान के एक दिन पूर्व रात्रि में अपने सभी मतदान केन्द्रों का भ्रमण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके जोन के सभी मतदान केन्द्रों की सभी टीमें उपस्थित हो गई हैं तथा उनके द्वारा लाई गई ईव्हीएम मशीनें, मतपेटी व अन्य निर्वाचन सामग्री सुरक्षित रखी गई हैं।
03. मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार रिटर्निंग/सहायक रिटर्निंग आफिसर द्वारा हस्ताक्षरित बोटर स्लिप का वितरण मतदान दिवस से 05 दिवस पूर्व किया जाना है, अतः सभी जोनल अधिकारी इस कार्य हेतु नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी से निर्धारित समय सीमा में बोटर स्लिप का वितरण कराना सुनिश्चित करें।
04. मतदान हेतु मतदान केन्द्र में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर निर्वाचन कार्य को निर्विघ्न एवं निर्विवाद सम्पन्न कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व नियुक्त जोनल आफिसर का रहेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा इस आदेश के प्रति किसी प्रकार का आवेदन अथवा अन्यथावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

अपर कलेक्टर एवं
उप जिला निर्वाचन अधिकारी
मण्डला

क्र.-स्था.निर्वा.-उप.निर्वा.पंचा.2023-221

//आदेश//

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल द्वारा पंचायतों के उप निर्वाचन-2023 (उत्तरार्द्ध) के लिए जारी कार्यक्रम के अनुसार मतदान दलों को मतदान कार्य संपादित करने के लिए सामग्री वितरण स्थल से मतदान केन्द्र तक पहुंचाने एवं मतदान पश्चात् वापसी स्थल तक आने की ओर रिपोर्ट भेजने, मतदान दिवस में मतदान केन्द्रों में सतत निगरानी रखने, मतदान की समय-समय पर रिपोर्ट भेजने, मतदान केन्द्र में होने वाली मतगणना की सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने, किसी आकस्मिक घटना एवं बूथ केप्चरिंग आदि की रिपोर्ट जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था.) मण्डला एवं संबंधित रिटर्निंग आफिसर (पंचायत) को भेजने तथा अन्य समस्याओं का त्वरित निराकरण सुनिश्चित कर सम्पूर्ण मतदान कार्य को निर्विवाद रूप से सम्पन्न कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु जनपद पंचायत नारायणगंज के लिए निम्नोक्त तालिका के कॉलम 03,04, में दर्शाये अनुसार ग्राम पंचायत के मतदाता केन्द्रों के लिए तालिका के कॉलम 02 में अंकित अधिकारियों को जोनल अधिकारी (सेक्टर) नियुक्ति किया जाता है:-

क्र.	नियुक्त जोनल (सेक्टर) आफिसर का नाम प्रदनाम, मो.नं. व कार्यालय का पता	ग्राम पंचायत का नाम	मतदान केन्द्र क्रमांक एवं नाम	कुल मतदान केन्द्रों की संख्या	थाना क्षेत्र का नाम
1	2	3	4	5	6
1	श्री आशुतोष गुप्ता सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय विभाग नारायणगंज मो.न. 6266026887	चकदेही	01-प्रा.शा.भवन चकदेही 02-मा.शा. भवन चकदेही	02	निवास

विशेष निर्देश -

- सरभंच पद के लिए मतदान ईव्हीएम से होगा। जारी कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 05.01.2024 को मतदान कार्य हेतु प्रातः 7.00 बजे से शाम 3.00 बजे तक का समय निर्धारित है। अतः नियुक्त अधिकारी अपने मतदाता केन्द्रों में मतदान कार्य हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करवावेंगे तथा मतदान समाप्ति के पश्चात् सीलबंद ईव्हीएम मशीनों एवं अन्य महत्वपूर्ण निर्वाचन सामग्री को सुरक्षित निर्धारित स्ट्रांग रूम में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। विद्युत विच्छेद की स्थिति में समुचित प्रकाश हेतु सभी मतदान केन्द्रों में विद्युत की वैकल्पिक व्यवस्था अनिवार्य रूप रखी जावे।
- नियुक्त अधिकारी मतदान के एक दिन पूर्व रात्रि में अपने सभी मतदाता केन्द्रों का भ्रमण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके जोन के सभी मतदान केन्द्रों की सभी टीमें उपस्थित हो गई हैं तथा उन्हे द्वारा चेकई गई ईव्हीएम मशीनें, मतपेटी व अन्य निर्वाचन सामग्री सुरक्षित रखी गई हैं।
- मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार रिटर्निंग/सहायक रिटर्निंग आफिसर द्वारा हस्ताक्षरित वोटर स्लिप का वितरण मतदान दिवस से 05 दिवस पूर्व किया जाना है, अतः सभी जोनल अधिकारी इस कार्य हेतु नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी से निर्धारित समय सीमा में वोटर स्लिप का वितरण कराना सुनिश्चित करें।
- नियुक्त अधिकारी उनके मतदान दल को प्रदत्त ईव्हीएम मशीनों में से माँक पोल एवं मतदान के दौरान खराब होने वाली CU & BU के क्रमांक व उनके स्थान पर दी गई नवीन CU & BU के क्रमांक की जानकारी संबंधित रिटर्निंग आफिसर एवं जिला कार्यालय को तत्काल देंगे। यह जानकारी भी उनके मशीनों के खराब होने से कितने समय मतदान प्रभावित रहा।
- मतदान हेतु मतदान केन्द्र में सभी आवश्यक व्यवस्थाएं कर निर्वाचन कार्य को निर्विघ्न एवं निर्विवाद सम्पन्न कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व नियुक्त जोनल आफिसर का रहेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा इस आदेश के प्रति किसी प्रकार का आवेदन अथवा अभ्यावेदन स्वीकार्य नहीं होगा।

अपर कलेक्टर एवं
मुख्य जिला निर्वाचन अधिकारी
मण्डला


कार्यालय कलेक्टर, एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन), बालाघाट, मध्यप्रदेश

क्र.-243-स्था.निर्वा.-2023

बालाघाट, दिनांक 15 दिसम्बर 2023

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के अनुपालन में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा रिक्त पदों पर जनपद पंचायत सदस्य, सरपंच एवं पंच पद के निर्वाचन जहाँ पर प्रस्तावित है, के लिये पंचायतों के उप निर्वाचन 2023-24 (उत्तरार्ध) सेक्टर ऑफिसर्स को कार्यपालिका मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदत्त करने हेतु, अधिकारियों की सूची निम्नानुसार प्रस्तावित हैं।

सेक्टर क्रमांक	विकासखण्ड/जनपद पंचायत का नाम	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	विभाग का नाम	मतदान केन्द्र क्रमांक	सम्मिलित ग्राम पंचायत का नाम	कुल मतदान केन्द्रों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1	बालाघाट	श्री जे0एल खरे सहायक यंत्री मनरेगा बालाघाट (मो न0-8839944358)	जनपद पंचायत बालाघाट	101, 102, 103, 262, 184	धापेवाडा, हट्टा, बगदरा	05
2	बैहर	श्री भोलासिंह मरावी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बैहर (मो न0-9340028498)	जनपद पंचायत बैहर	25,26	मोहरई	02
3	बिरसा	श्री गार्गीशंकर पारधी सहायक यंत्री मनरेगा बिरसा	जनपद पंचायत बिरसा	181,182, 180,171, 172,173, 174, 175,176,177,25,108 ,168	रघोली, मझगाव, कचनारी, बहेरामाटा, बाकीगुड्डा, रेलवाही, अचानकपुर	13
4	कटंगी	श्री संतोष कुमार नागेश सहायक यंत्री मनरेगा कटंगी (मो न0-8770802925)	जनपद पंचायत कटंगी	15,16,17,3031,32,3 3,34,01,02,12,16,06	बनेरा, कटेरा, जमुनिया, हरदोली, नवगांव, टेकाडी(म)	13
5	परसवाडा	श्री लाजरुस केरकेट्टा	जनपद	40, 144, 60	पोंगारझोडी	03
6	जरासिंहजी	श्री राजपाल ताराम सहायक यंत्री जरासिंहजी	जनपद पंचायत जरासिंहजी	07,15,1,54	पणवडी, अगनाला (पाटी) धनवार शिव मठवा लाजपुर	
7	किरनापूर	श्री के0एल टेकाग नायब तहसीलदार, किरनापूर	तहसील कार्यालय किरनापूर	10,71,86,44,45,233	दहेगडवा, खारा मुरी, डोंगरगांव (बटकरी, मानागड), कादरीकला	06
8	खैरलाजी	श्री चन्द्रसिंह मंडलोई मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत खैरलाजी (मो न0-7509525999)	जनपद पंचायत खैरलाजी	169,170, 171, 42	चिखला, मोहाडी	04
9	लांजी	श्री तारेन्द्र परते मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लांजी (मो न0-9407312765)	जनपद पंचायत लांजी	92	देवरबेली	01


 (डॉ गिरीश कुमार मिश्रा)
 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
 स्थानीय निर्वाचन बालाघाट (म0प्र0)

कार्यालय कलेक्टर, एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) सिवनी, मध्यप्रदेश

क्र.-439-स्था.निर्वा.-2023

सिवनी, दिनांक 15 दिसम्बर 2023

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशानुसार त्रि-स्तरीय पंचायत उप निर्वाचन वर्ष-2023 (उत्तरार्द्ध) हेतु सेक्टर अधिकारियों की नियुक्ति की जाकर विशेष कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदत्त करने हेतु आपकी ओर निम्नानुसार भेजा जा रहा है:-

क.	जनपद पंचायत का नाम	सेक्टर अधिकारी का नाम, पदनाम एवं विभाग का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	सिवनी	श्री प्रफुल्ल घोडेसवार, सहायक संचालक, कार्यालय उपसंचालक कृषि सिवनी
2.	सिवनी	श्री ईश्वरदास गेश्राम, सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, कार्यालय सहायक भूमि संरक्षण सिवनी
3.	सिवनी	श्री आशीष नोएल, प्रबंधक, कार्यालय जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र सिवनी
4.	सिवनी	श्री शशांक शेखर सिंह ठाकुर, परियोजना अधिकारी, कार्यालय एकीकृत बाल विकास परियोजना ग्रामीण-2 सिवनी
5.	सिवनी	श्री अभिषेक प्रधान, प्रबंधक, जल निगम सिवनी
6.	सिवनी	श्री राजाराम सनोडिया, सहायक यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सिवनी
7.	बरघाट	श्री केवलप्रसाद परते, खण्ड पंचायत अधिकारी बरघाट
8.	केवलारी	श्री सोहेल हैदरी, उपयंत्री, जनपद पंचायत केवलारी
9.	केवलारी	श्री दीपक बंदेल, उपयंत्री, जनपद पंचायत केवलारी
10.	कुरई	श्री तीजूलाल उइके, सहायक यंत्री, जनपद पंचायत कुरई
11.	कुरई	श्री धनश्याम चतुर्वेदी, वन परिक्षेत्र अधिकारी, वन परिक्षेत्र खवासा
12.	लखनादौन	श्री राहुल रोकडे, सहायक यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा लखनादौन
13.	लखनादौन	श्री मुकेश दूबे, उपयंत्री, जनपद पंचायत लखनादौन
14.	घंसौर	श्री संजय कुमार जाटव, सहायक यंत्री, मनरेगा, जनपद पंचायत घंसौर
15.	घंसौर	श्री संजय श्रीवास्तव, उपयंत्री, जनपद पंचायत घंसौर

उप जिला निर्वाचन अधिकारी
(स्था. निर्वा.) जिला-सिवनी

क्र.-490-स्था.निर्वा.-2023

सिवनी, दिनांक 27 दिसम्बर 2023

संशोधित आदेश

कार्यालयीन पत्र क्रमांक/415/स्था.निर्वा./2023 सिवनी, दिनांक 11/12/2023 एवं संशोधित आदेश क्रमांक/434/स्था.निर्वा./2023 सिवनी, दिनांक 13/12/2023 में लगे सेक्टर अधिकारियों के स्थान पर मैं कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सिवनी, जिला-सिवनी नीचे दर्शित अधिकारियों को पंचायत उप निर्वाचन वर्ष 2023 का कार्य संपन्न कराये जाने हेतु निम्नानुसार सेक्टर अधिकारी नियुक्त करता हूँ :-

सेक्टर क्रमांक	जनपद पंचायत का नाम	सेक्टर अधिकारी का नाम एवं पद विभाग का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	मतदान केन्द्रों की संख्या	मतदान केन्द्र का नाम	मतदान केन्द्र क्रमांक				
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)				
1.	सिवनी	श्री प्रफुल्ल घोड़ेसवार, सहायक संचालक, कार्यालय उपसंचालक कृषि सिवनी, मोबाईल नंबर-7693955285	बखारी जि.प.सदस्य	15	गा.प. भवन बखारी	1				
			बखारी जि.प.सदस्य		कल्या मा. शाळा भवन बखारी	2				
			बखारी जि.प.सदस्य		शास.उच्चतर माध्यमिक शाळा बखारी	3				
			चारगाव जि.प.सदस्य		प्रा.शा.चारगाव	4				
			चारगाव जि.प.सदस्य		गा.प.भवन चारगाव	5				
			समनापुरमाल, जि.प.सदस्य		प्रा.शा.समनापुरमाल	6				
			समनापुरमाल, जि.प.सदस्य		प्रा.शा.पिपारिया	7				
			जमुनिया (बको.) जि.प.सदस्य		प्रा.शा.जमुनिया	11				
			जमुनिया (बको.) जि.प.सदस्य		प्रा.शा.जमुनिया	12				
			जमुनिया (बको.) जि.प.सदस्य		प्रा.शा.बकोडी	13				
			सागर जि.प.सदस्य		नवीन ग्राम पंचायत भवन (पूर्व) सागर	14				
					नवीन ग्राम पंचायत भवन (पश्चिम) सागर	15				
					सागर जि.प.सदस्य	आयनवाडी भवन लामटा	16			
					सागर जि.प.सदस्य	प्रा.शा.ओरिया रैयत	17			
					ओरिया रैयत जि.प.सदस्य	प्रा.शा.जटलापुरमाल	18			
					ओरिया रैयत जि.प.सदस्य					
			2.		सिवनी	श्री महेन्द्र घाणे, उपयंत्री, लोक निर्माण विभाग, विद्युत सेक्शन सिवनी, मोबाईल नंबर-9424542576	चन्दौरीकला जि.प.सदस्य	14	प्रा.शा.चंदौरीकला	22
							चन्दौरीकला जि.प.सदस्य		प्रा.शा.चंदौरीकला	23
चन्दौरीकला जि.प.सदस्य	प्रा.शा.चंदौरीखुर्द	24								
छिन्दरवार जि.प.सदस्य	प्रा.शा.छिंदरवार(उत्तर)	25								
छिन्दरवार जि.प.सदस्य	प्रा.शा.छिंदरवार(दक्षिण)	26								
छिन्दरवार जि.प.सदस्य	प्रा.शा.नकाटिया	27								
मनौरी जि.प.सदस्य	प्रा.शा.मनौरी	28								
मनौरी जि.प.सदस्य	प्रा.शा.रनबेली	29								

सेक्टर क्रमांक	जनपद पंचायत का नाम	सेक्टर अधिकारी का नाम एवं पद विभाग का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	मतदान केंद्रों की संख्या	मतदान केंद्र का नाम	मतदान केंद्र क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
			हिनोतिया (रन) जि.प.सदस्य		प्रा.शा.हिनोतिया(रन)	73
			हिनोतिया (रन) जि.प.सदस्य		मा.शा.हिनोतिया(रन)	74
			मारवोडी जि.प.सदस्य		प्रा.शा.मारवोडी	80
			मारवोडी जि.प.सदस्य		माध्यमिक शाला भवन मारवोडी	81
			जैतपुरखुर्द जि.प.सदस्य		माध्यमिक शाला जैतपुरखुर्द	110
			जैतपुरखुर्द जि.प.सदस्य		प्राथमिक शाला सिंगोडी	111
3	सिवनी	श्री आशीष नोएल, प्रबंधक, कार्यालय जिला उद्योग एवं व्यापार केंद्र सिवनी, मोबाईल नंबर-9713756767	दुकली जि.प.सदस्य	12	प्रा.शा.दुकली	8
			दुकली जि.प.सदस्य		प्रा.शा.जुझारपुर	9
			दुकली जि.प.सदस्य		प्रा.शा.बाम्बूनबाडा	10
			बांकी जि.प.सदस्य		शास. हाई स्कूल बांकी	19
			बांकी जि.प.सदस्य		प्रा.शा.बांकी (अति)	20
			बांकी जि.प.सदस्य		ग्राम प.भवन बांकी	21
			जुरतरा (मु.) जि.प.सदस्य		प्रा.शा.जुरतरा(दक्षिण)	30
			जुरतरा (मु.) जि.प.सदस्य		प्रा.शा.जुरतरा	31
			जुरतरा (मु.) जि.प.सदस्य		प्रा.शा.मोठार	32
			बिहिरीया (नादनी) जि.प.सदस्य		प्रा.शा.बिहिरीया(नमद)	84
			बिहिरीया (नादनी) जि.प.सदस्य		प्रा.शा.गंगरुआ	85
			बिहिरीया (नादनी) जि.प.सदस्य		प्रा.शा.नादनी	86
4	सिवनी	ताहिर अजीज खान, उपयंत्री लोक निर्माण विद्युत सेक्सन सिवनी, मोबाईल नंबर-9826959333	मुगवानीकला जि.प.सदस्य	16	प्रा.शा.मुगवानीकला	106
			मुगवानीकला जि.प.सदस्य		मा.शा.मुगवानीकला	107
			मुगवानीखुर्द जि.प.सदस्य		ग्राम पंचायत भवन मुगवानीखुर्द	108
			मुगवानीखुर्द जि.प.सदस्य		प्रा.शा.बाघी	109
			भाटीवाडा(मुग.) जि.प.सदस्य		ग्राम पंचायत भवन भाटीवाडा	117
			भाटीवाडा(मुग.)		प्रा.शा.खैरीकला	113
			कमकासुर जि.प.सदस्य		प्रा.शा.कमकासुर	130
			कमकासुर जि.प.सदस्य		प्रा.शा.कमकासुर	131
			जैतपुरकला जि.प.सदस्य		मा.शा.जैतपुरकला	149
			जैतपुरकला जि.प.सदस्य		मा.शा.जैतपुरकला	150
			जैतपुरकला जि.प.सदस्य		ग्राम पंचायत भवन जैतपुरकला	151
			सगई जि.प.सदस्य		मा.शा.सगई	152
			सगई जि.प.सदस्य		प्रा.शा.सरगापुर	153
			पुसेरा जि.प.सदस्य		प्रा.शा.पुसेरा	89
			पुसेरा जि.प.सदस्य		प्रा.शा.टिकारी	90
			पुसेरा जि.प.सदस्य		मा.शा.टिकारी	91
5	सिवनी	श्रीमति दिप्ती बहोर, उपयंत्री, लोक	जाम जि.प.सदस्य	14	मा.शा.जाम	75
			जाम जि.प.सदस्य		मा.शा.जाम	76

सेक्टर क्रमांक	जनपद पंचायत का नाम	सेक्टर अधिकारी का नाम एवं पद विभाग का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	मतदान केन्द्रों की संख्या	मतदान केन्द्र का नाम	मतदान केन्द्र क्रमांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)
		निर्माण विभाग सेक्सन सिवनी, मोबाईल नंबर-8817517450	जाम जि.प.सदस्य कन्हैयाव जि.प.सदस्य कन्हैयाव जि.प.सदस्य भाटीवाडा(मुग) जि.प.सदस्य हथनापुर जि.प.सदस्य हथनापुर जि.प.सदस्य हथनापुर जि.प.सदस्य पिपरिया जि.प.सदस्य पिपरिया जि.प.सदस्य पिपरिया जि.प.सदस्य मडवा जि.प.सदस्य मडवा जि.प.सदस्य		प्रा.शा.पांजरा प्रा.शा.कन्हैयाव ग्रा.प.भवन कन्हैयाव प्रा.शा.सिमरिया प्रा.शा.हथनापुर मा.शा.हथनापुर शा.हाई स्कूल हथनापुर प्रा.शा.पिपरिया प्रा.शा.पिपरिया(अति कक्षा) प्रा.शा.ठरकाखेडा प्रा.शा.मडवा माध्यमिक शाला भवन मडवा	77 78 79 114 122 123 124 125 126 127 128 129
6.	सिवनी	श्री शशाक शेखर सिंह ठाकुर परियोजना अधिकारी, कार्यालय रकीकृत बाल विकास परियोजना ग्रामीण-2 सिवनी मोबाईल नंबर-9630886119	उमरिया सरपंच उमरिया सरपंच	02	प्रा.शा.उमरिया प्रा.शा.बामहनवाडा	329 330
7.	सिवनी	श्री अभिषेक प्रधान प्रबंधक, जल निगम सिवनी, मोबाईल नंबर-7985292304	तिघरा जि.प.सदस्य तिघरा जि.प.सदस्य कोठिया जि.प.सदस्य कोठिया जि.प.सदस्य दिघोरी जि.प.सदस्य दिघोरी जि.प.सदस्य भोगाखेडा जि.प.सदस्य भोगाखेडा जि.प.सदस्य गरठिया जि.प.सदस्य गरठिया जि.प.सदस्य गरठिया जि.प.सदस्य नरेला जि.प.सदस्य नरेला जि.प.सदस्य	13	मा.शा.तिघरा प्रा.शा.धतुरिया प्रा.शा.कोठिया प्रा.शा.बंधा प्रा.शा.अति कक्षा दिघोरी प्रा.शा.घोटी प्रा.शा.भोगाखेडा(अति.कक्षा) मा.शा.भोगाखेडा प्रा.शा.गरठिया आगानवाडी भवन धुहाई प्रा.शा.गमई शास.मा.शा.नरेला प्रा.शाला भवन नरेला	115 116 82 83 87 88 92 93 94 95 96 117 118

उपरोक्तानुसार सेक्टर अधिकारी अपने-अपने सेक्टर में दायित्वों का निर्वहन करेंगे।

कलेक्टर एवं जिला निवचन अधिकारी
(स्था.निर्वा.) जिला-सिवनी


कार्यालय कलेक्टर (स्थानीय निर्वाचन) नरसिंहपुर

क्र.-1245-स्था.निर्वा.-2023

नरसिंहपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2023

संदर्भित पत्र अनुसार विषयांतर्गत चाही गयी पंचायत उप निर्वाचन 2023 (उत्तरार्द्ध) हेतु जोनल(सेक्टर)आफीसर से संबंधित जानकारी जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	सेक्टर आफीसर का नाम	पदनाम	विभाग	रिमार्क
1	श्री आर.के.जैन,	अनु.अधि.	लोक निर्माण विभाग,सेतु नि0वि0 नरसिंहपुर	-
2	श्री गंगाराम रैदास	उपयंत्री	रा.अं.बा.लो.सागर नहर संभाग नरसिंहपुर	-
3	श्री कैलाश ठाकुर	अनु.अधि.	रा.अं.बा.लो.सागर नहर संभाग नरसिंहपुर	-
4	श्री आदित्य मोहन पटेल	परि.अधि.	महिला बाल विकास परियोजना करेली	-
5	श्री अर्णव गुहा	अनु.अधि.	लोक निर्माण विभाग,गोटेगांव	-
6	श्री एम.एल.बैनल	कार्यपालन यंत्री	रा.अं.बा.लो.सागर नहर संभाग परि.गोटेगांव	-
7	श्री बी.डी.मुडिया	अनु.अधि.	जल संसाधन विभाग गोटेगांव	-
8	श्री आर.आर.बिसारिया	उपयंत्री	रा.अं.बा.लो.सागर नहर संभाग परि.गोटेगांव	-
9	श्री आर.के.धवन	उपयंत्री	रा.अं.बा.लो.सागर नहर संभाग परि.गोटेगांव	-
10	श्री प्रदीप शर्मा	उपयंत्री	जनपद पंचायत साईखेडा	-
11	श्री शैलेश कौल	ITI प्राचार्य	ITI तेन्दूखेडा	-
12	श्री विशाल धुर्वे	AE	जनपद पंचायत चांवरपाठा	-
13	श्री मुकेश कुमार (रिजर्व)	एसडीओ बरगी	रा.अं.बा.लो.सागर नहर संभाग नरसिंहपुर	रिजर्व
14	श्री राजेश कुमार वर्मा (रिजर्व)	उपयंत्री	रा.अं.बा.लो.सागर नहर संभाग 2 गोटेगांव	रिजर्व



 डिप्टी कलेक्टर

एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी, नरसिंहपुर

क्र.-1286-स्था.निर्वा.-2023


नरसिंहपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2023

पंचायतों के न्यून निर्वाचन उत्तराह्व, 2023 के लिये के जनपद पंचायत वार निम्नानुसार अधिकारियों को सेक्टर आफिसर नियुक्त किया जाता है।

जनपद पंचायत का नाम-नरसिंहपुर

सेक्टर क्र./नंभम	सेक्टर आफिसर का नाम एवं पद	ग्राम पंचायत का नाम	मतदान केन्द्र क्रमांक व नाम	कुल मतदान केन्द्र
जरजोला	श्री धार. के. जैन, अनु० वि० अ० वि० लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण, नरसिंहपुर मो. 9425402381	जरजोला	68-जरजोला, प्रा० शा० भवन जरजोला 69-जरजोला, प्रा० शा० भवन नंदवारा 70-जरजोला, प्रा० शा० भवन सिमरिया	03
रिजर्व जनपद पंचायत नरसिंहपुर	श्री देवेन्द्र डेहरिया अ० वि० अ० वि० सा० अ० सा० लो० सागर नगर संभ्रम नरसिंहपुर मो. 9179043818			
जनपद पंचायत -गोटेगांव				
गुदरई	श्री आरंभ गुहा, अनु० अधिकारी निर्माण विभाग गोटेगांव	गुदरई	159- गुदरई, प्रा० शा० भवन गुदरई 160-गुदरई, ग्राम पंचायत भवन गुदरई 161-गुदरई, प्रा० शा० भवन गुदरई	03
		मगरथा सेठ	208-प्रा० शा० भवन मगरथा	
रिजर्व जनपद पंचायत	श्री बी.डी. मुडिया, अनु० अधिकारी, जल संसाधन विभाग गोटेगांव			

- रिटनिंग अधिकारी उक्त सेक्टर अधिकारियों को अपने स्तर से रिटनिंग प्रदान करावें।
- सेक्टर अधिकारी अपने सेक्टर अंतर्गत समस्त मतदान केन्द्रों की व्यवस्था हेतु उत्तरदायी होंगे।
- संबंधित सेक्टर अधिकारी, निर्वाचन संबंधी अधिसूचना जारी होने के दिनांक से निर्वाचन पूर्व तक कम से कम तीन बार आंबटित मतदान केन्द्रों का दौरा कर निर्वाचन हेतु आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे एवं आवश्यकतानुसार सुधार कर संबंधित पंचायतों व सहायक विभागों से कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।
- समस्त सेक्टर अधिकारी मतदान केन्द्र का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित प्रारूप में जानकारी रिटनिंग अधिकारी एवं इस कार्यालय को उपलब्ध करावेंगे।
- स्टैट कार्ट का सत्यापन।
- पत्नरेखा एवं संवेदनशील मतदान केन्द्रों का चिह्नकन।
- सेक्टर अधिकारी स्वयं के विभागीय वाहन/विभाग में उपलब्ध शासकीय या अनुबंधित वाहन से भ्रमण करेंगे। जिन सेक्टर अधिकारियों के पास स्वयं का या विभाग का वाहन उपलब्ध नहीं है, वे अपने रिटनिंग अधिकारी को सूचित कर भ्रमण हेतु वाहन प्राप्त कर भ्रमण करेंगे। उपरोक्त दल आंबटित मतदान केन्द्रों का भ्रमण तीन दिवस में अनिवार्य रूप से किया जाकर वांछित जानकारी रिटनिंग/सहायक रिटनिंग आफिसर को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करेंगे।


 कलेक्टर एवं
 जिला निर्वाचन-अधिकारी
 स्थानीय निर्वाचन, नरसिंहपुर

कार्यालय कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) छिन्दवाड़ा

क्र.-412-पंचा.निर्वा.-2023

छिन्दवाड़ा, दिनांक 20 दिसम्बर 2023

त्रि-स्तरीय पंचायतों के उपनिर्वाचन 2023 (उत्तरार्द्ध) जिला छिन्दवाड़ा हेतु कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्रदाय किये जाने वाले अधिकारियों की सूची

क्र.	अधिकारी का नाम	पद नाम	विभाग का नाम	संबंधित क्षेत्र	रिमार्क
1	2	3	4	5	6
1	मोनिका उड्के	बाल विकास परियोजना अधिकारी परासिया	महिला एवं बाल विकास विभाग	जनपद पंचायत परासिया	
2	श्री आर.पी. सोनी	सहायक यंत्री	ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा	जनपद पंचायत परासिया	
3	श्री प्रमोद सिंह उट्टी	अनुविभागीय कृषि अधिकारी परासिया	कृषि विभाग	जनपद पंचायत परासिया	
4	लालचंद मेरावी	अनुविभागीय अधिकारी	ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा	जनपद पंचायत परासिया	
5	नर्मदप्रसाद मलगाम	सहायक यंत्री	जल संसाधन विभाग	जनपद पंचायत परासिया	

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
(स्थानीय निर्वाचन) छिन्दवाड़ा

कार्यालय, कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला कटनी, मध्यप्रदेश

क्र.-स्था.निर्वा.-2023-09

कटनी, दिनांक 20 दिसम्बर 2023

!!बादेश!!

नगरीय निकाहों एवं वि-स्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2023 को दृष्टिगत रखते हुए मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मतदान केंद्रों का प्रारंभिक स्थापन करना, फोटो/वीडो शॉटिंग, मतदान केंद्रों के रूट चार्ट का स्थापन करना एवं तदनुसार प्रशासनिक एवं जनकी पहचान और सुव्यवस्था, मतदान केंद्र के बुनियादी ढांचे पर आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना, यदि एक ही परिवार/पंचायत में एकत्रित मतदान केंद्र हैं तो उसके संदर्भ में जानकारी/वेबसाइट एरिवा/कन्सिस्टेंसी की जानकारी एकत्रित करना तथा मतदान केंद्रों को सुव्यवस्थित रूप से सुनिश्चित पड़ना एवं मतदान प्रक्रिया पूर्व सुख्या के साथ ईवीएम/वीवीपीपीटी मशीनों/मत मशीन इन्जिन मतदान केंद्रों को निकालसुखत सुव्यवस्था प्रकृति आदि कार्रवायों के निर्वहन हेतु विभिन्न विवरण अनुसार एचएच द्वारा एकत्रित अधिकार नियुक्त किये जाते हैं:-

वि-स्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2023

क्र.सं.	विकासखण्ड का नाम	सेक्टर/विकासी का नाम एवं पदनाम	ग्राम पंचायत/गांव का नाम	कुल मतदान केंद्रों की संख्या	मतदान केंद्र का क्रमांक एवं नाम
1	हीमरखेडा	श्री अरवि कुमार बड़वाल सहायक सत्री, लोक निर्माण विभाग 9424618058	बिना चिपरीवा	06	54 प्राथमिक शाळा अरवि विनाचिपरीवा क्रम सं. 1
2					55 प्राथमिक शाळा अरवि विनाचिपरीवा क्रम सं. 2
3					56 प्राथमिक शाळा अरवि विनाचिपरीवा क्रम सं. 3
4					57 हाई स्कूल बिनाचिपरीवा क्रम सं. 1
5					58 प्राथमिक शाळा अरवि विनाचिपरीवा
6					59 प्राथमिक शाळा अरवि विनाचिपरीवा
7		श्री विनोद कुमार शर्मा, सहायक सत्री, लोक निर्माण विभाग कटनी 8260334761	चिरी	04	240 प्राथमिक शाळा चिरी
8					241 प्राथमिक शाळा चिरी
9					242 प्राथमिक शाळा चिरी
10					243 प्राथमिक शाळा चिरी
11		श्री विक्रम कुमार पटेल, सहायक सत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग स्त्रीमनाबाद 9584588055	भगवा	03	232 प्राथमिक शाळा भगवा
12					233 प्राथमिक शाळा भगवा
13					234 प्राथमिक शाळा भगवा
14			अरवि	01	88 प्राथमिक शाळा अरवि क्रमांक 01
15			बरी	01	104 प्राथमिक शाळा बरी क्रमांक 01
16			दादर सिड्डी	01	53 प्राथमिक शाळा दादर सिड्डी
17		कान	01	81 प्राथमिक शाळा कान	

क्र.सं.	विकासखण्ड का नाम	सेक्टर अधिकारी का नाम एवं पदनाम	ग्राम पंचायत/वार्ड का नाम	कुल म. केन्द्रों की संख्या	मतदान केन्द्र का क्रमांक एवं नाम
19	विचयराजखण्ड	श्री इंद्रपाल शोकेत उपखंडी ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा संभाग कटनी 6261844113	टिकरिया	01	46
20			रजवाड़ा नं2	01	53
21			देवरी मड़गाँवा	01	146
22			देवरासुंद	01	213
23	कटनी	श्री एस के इंद, सहायक खंडी ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा संभाग कटनी 9424395798	लखापतेरी	01	5
24			भनपूर नं 01	01	52
25	अरबरा	श्री विनोद कुमार चौड़े, सहायक खंडी को-निर्माण विभाग कटनी 6260334761	विलापतकला	01	263
26			गुदही	01	185
27	सिद्धी	श्री आर.के.सैत, सहायक खंडी ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा संभाग कटनी 9899339778	विक्रसुडी	01	63
रिजर्व दल					
01	श्री एस.एस. भारती, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बीमरबेवा जिला कटनी				

(नगरपालिका क्षेत्र निर्वाचन 2023)

क्र.सं.	महानगरपालिका का नाम	सेक्टर अधिकारी का नाम एवं पदनाम	वार्ड का नाम	कुल म. केन्द्रों की संख्या	मतदान केन्द्र का क्रमांक एवं नाम
28	नगरपालिका कटनी	श्री तीरधर असाद मुद्दान, सहायक खंडी-ग्रामीण यांत्रिकीय सेवा उपसहायकीय कार्यालय जनपद भवामत कटनी 9425844589	महात्मा गांधी वार्ड नं0 9	04	31
29					32
30					33
31					34
32		श्री सुवाणु तिवारी, सहायक खंडी, न.प्र. प्रदूषण नियंत्रण वार्ड कटनी, 9575643888	डा.जे.ए.प्रसाद वार्ड नं0 36	04	143
33					204
34					144
35					145
रिजर्व दल					
01	श्री प्रभाकर सिंह सोधी, सहायक, खंडी म प्र गृह निर्माण एवं अधीनस्थ विकास मंडल कटनी 9406912275				

उपरोक्त नियुक्त सेक्टर ऑफिसर मतदान पूर्व क्षमण के उपरांत आवश्यक न्यूनतम सुविधाओं से संबंधित जानकारी संबंधित रिटनिंग ऑफिसर को देना सुनिश्चित करेंगे तथा राज्य निर्वाचन आयोग / जिला निर्वाचन कार्यालय से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप संबंधित रिटनिंग ऑफिसर से समन्वय स्थापित कर स्थानीय उप निर्वाचन प्रक्रिया को निर्विघ्न सम्पन्न कराने के लिये पूर्णतः जिम्मेदार होंगे। सेक्टर अधिकारी मतदान दलों के प्रशिक्षण में उपस्थित रहेंगे।

अधिक जानकारी के लिये संपर्कित किया जा सकता है।


(अवि प्रसाद)

कलेक्टर

एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला कटनी

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) बैतूल
मध्यप्रदेश

क्र.-577-पंचा.उपनिर्वा.-2023

बैतूल, दिनांक 27 दिसम्बर 2023

कृपया सश्रुत पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। पंचायत उप निर्वाचन समिति के अंतर्गत जिले में 02 जनपद सदस्य एवं 04 प्रत्येक पंचायत से एक ही निर्वाचन समिति का कार्य है। हेतु नियुक्त सेक्टर अधिकारियों के कार्यपालिका मजिस्ट्रेट को आवेदन करने के लिए निम्नानुसार अधिषेप है।

क्र.	जनपद पंचायत का नाम	सेक्टर अधिकारियों का नाम	पदनाम
1	आमला	1. श्री विवेक कुमार	सहायक सत्री, आर.ई.एस. आमला
		2. श्री धनराज सुरेश्वरी (रिजर्व)	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी आमला
2	सोडाहीगरी	1. सुश्री फ़िरदौस शाह	प्रभारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी जनपद पंचायत सोडाहीगरी
		2. श्रीमती प्रभा इक्का (रिजर्व)	परियोजना अधिकारी जाल विकास परियोजना सोडाहीगरी
3	भंसदेही	1. श्री जितेन्द्र सिंह ठाकुर	मुख्य कार्यपालक अधिकारी जनपद पंचायत भंसदेही

संयुक्त कलेक्टर एवं
उप जिला निर्वाचन अधिकारी
(स्थानीय निर्वाचन) बैतूल

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला देवास,
मध्यप्रदेश

नगरीय निकाय एवं पंचायत उप निर्वाचन 2023 के लिए 01 नगर परिषद एवं 02 जनपद पंचायतों हेतु कार्यपालिका मजिस्ट्रेट को शक्तिपूर्वक प्रदाय करने वाले अधिकारियों की सूची।

क्र.	कार्यपालिका मजिस्ट्रेट अधिकारियों का नाम एवं पद	हेतुनामक नाम	संबंधित क्षेत्र
1	श्री विरमरिंह चौधरी	नगर परिषद देवास	नगर परिषद देवास
2	श्री अमित शर्मा	जनपद पंचायत देवास	जनपद पंचायत देवास
3	श्री अमित शर्मा	जनपद पंचायत देवास	जनपद पंचायत देवास
4	श्री अमित शर्मा	जनपद पंचायत देवास	जनपद पंचायत देवास
5	श्री अमित शर्मा	जनपद पंचायत देवास	जनपद पंचायत देवास
6	श्री अमित शर्मा	जनपद पंचायत देवास	जनपद पंचायत देवास

उप जिला निर्वाचन अधिकारी
स्थानीय निर्वाचन जिला देवास

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था. निर्वा.) जिला झाबुआ

क्र.-444-स्था.निर्वा.-2023

झाबुआ, दिनांक 26 दिसम्बर 2023

आदेश:

त्रि-स्तरीय पंचायतो के रूप-निर्वाचन(चतुस्रार्द्ध) 2023 को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सम्पन्न कराये जाने के लिए जिला झाबुआ के जनपद मंचायत झाबुआ, रानापूर, एवं थानदला हेतु निम्नांकित अधिकारियों को सेक्टर ऑफिसर नियुक्त किया जाता है :-

क्र.	जनपद एवं पंचायत का नाम	सेक्टर ऑफिसर का नाम एवं पदनाम	मो.न.
1	थानदला	श्री बालकिशोर झालवी, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, थानदला	9320302091
2	झाबुआ	श्रीमति मृदुला सखानी, नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, मेघनगर	9425927399
3	रानापूर	श्री टी. विष्णु, प्रभारी तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, रानापूर	9425968102

अपर कलेक्टर
अपर जिला दण्डाधिकारी
जिला-झाबुआ

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला धार, मध्य प्रदेश

क्र.-1061-त्रि.प.उप.निर्वा.-MPM-2023

धार, दिनांक 20 दिसम्बर 2023

क्र.	नाम	पद	कार्यालय का नाम	सं. क्र.	पता
1	श्री प्रवीण सितोलिया	परियोजना अधिकारी	महिला एवं बाल विकास, धार 9893672268	कार्यपालिक	5-पंचायत भवन पिपल्या
2	श्री राकेश डाबर	अनुविभागीय अधिकारी	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, धार 9406689921	कार्यपालिक	97-शास.माध्य विद्या नवीन भवन एकलदूना
3	डॉ. विक्रम पवार	पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी	उप संचालक, पशु चिकि.सेवाएं, जिला धार	कार्यपालिक	223-माध्यमिक विद्यालय जेतपुरा
त्रिस्तरीय-पंचायत उप निर्वाचन 2023 (उत्तरार्द्ध)-तिरला					
1	श्री रात्यनारायण मकवाना,	परियोजना अधिकारी	महिला एवं बाल विकास परियोजना, तिरला 8770453385	कार्यपालिक	82-प्राथमिक विद्यालय खिडक्याकला
2					83-प्राथमिक विद्यालय कुण्डी
3					84-प्राथमिक विद्यालय सेमलीपुरा
त्रिस्तरीय-पंचायत उप निर्वाचन 2023 (उत्तरार्द्ध)-बदनावर					
1	डॉ. जे.एस.भूरिया	पशु चिकि.विस्तार अधि.7746930084	उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं, धार	कार्यपालिक	12-प्राथमिक विद्यालय पिपलीपाड़ा(मैरुपाड़ा)
2	श्री देवनारायण गुजराती	खण्ड स्त्रोत समन्वयक 9926810187	जिला शिक्षा केन्द्र, धार	कार्यपालिक	13-शास.मावि भवन बखतगढ़ अति.कक्ष
3	श्री घनश्याम बग्गड़	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	वरिष्ठ कृषि विकास अधि., बदनावर, जि. धार 9009351691		रिजर्व
त्रिस्तरीय-पंचायत उप निर्वाचन 2023 (उत्तरार्द्ध)-सरदारपुर					
1	श्री दिनोद पाटीदार,	उप यंत्री	जनपद पंचायत सरदारपुर, जिला धार	कार्यपालिक	176-पंचायत भवन अमोदिया
2	श्री भवरसिंग गरवाल, उपयंत्री,	जनपद पंचायत सरदारपुर, जिला धार			रिजर्व
त्रिस्तरीय-पंचायत उप निर्वाचन 2023 (उत्तरार्द्ध)-बाग					
1	डॉ. सुनिल बडोले,	पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी	उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं, धार	कार्यपालिक	26-प्राथमिक विद्यालय गुडा 61-नवीन प्राथमिक विद्यालय काटी
2	श्री मेहताबसिंह चौहान	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी,	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी, बाग, जिला धार 9685361249	कार्यपालिक	120-माध्यमिक विद्यालय भवन आगर
त्रिस्तरीय-पंचायत उप निर्वाचन 2023 (उत्तरार्द्ध)-डहीं					
1	श्री ललित वास्केल,	उपयंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, निसरपुर, जिला धार 7970068614	कार्यपालिक	80-माध्य.विद्या.भवन रेबड़दा का उत्तरी भाग
त्रिस्तरीय-पंचायत उप निर्वाचन 2023 (उत्तरार्द्ध)-निसरपुर					
1	श्री निर्मल पाटीदार	पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी,	उप संचालक, पशु चिकि सेवाएं, जिला धार	कार्यपालिक	12-प्राथ.विद्या.अमलझुभा का परिचयी भाग

क्र.सं.	नाम	पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी	उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं, जिला धार	कार्यपालक	रिजर्व
त्रिस्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2023 (उत्तरार्द्ध) - मनावर					
1	श्री ईशराम कनोजे	सहायक यंत्री	नर्मदा विकास सभाग 30 मनावर, जिला धार 7067708328	कार्यपालक	102-मा.पालिक भवन बोरुद 108-प्रा.शाला भवन झापडी 117-प्रा.शाला भवन एहमदपुर 130-प्रा.शाला भवन अजदीकोट 131-मा.शाला भवन कक्ष क्र 2 अजदीकोट 132-माध्यमिक शाला भवन अजदीकोट 168-प्रा.शा.भवन पुर्नबसाहट स्थल रोमल्दा 178-मा.शा.भवन अजदा का उत्तरी भाग
2	श्री शुभम सोलंकी	उपयंत्री	नर्मदा घाटी विकास प्राधि, मनावर, जिला धार 7974702877	कार्यपालक	रिजर्व
त्रिस्तरीय-पंचायत उप निर्वाचन 2023 (उत्तरार्द्ध) - उमरबन					
1	श्री पी.एल.परमार	वरिष्ठ कृ.वि. अधिकारी, उमरबन	वरिष्ठ कृ.वि.अधिकारी, उमरबन, जिला धार	कार्यपालक	3-मा.विद्यालय पाडला का अतिरिक्त कक्ष 4-मा.विद्यालय पाडला का अतिरिक्त कक्ष 5-प्राथमिक विद्यालय डोंगला 34-प्राथमिक विद्यालय दसाई 36-प्राथमिक विद्यालय खेरवा नयापुरा 37-प्राथमिक विद्यालय खेरवा कनारगापुरा 30-प्रा.वि.नवीन भवन बयडीपुरा उमरबनकला 51-प्राथमिक विद्यालय उखल्दा 69-आगनवाडी भवन कलाल्दा 64-मा.वि.करोदियामोटा 61-प्राथमिक विद्यालय पांजरिया 62-माध्यमिक विद्यालय जामन्याखुर्द 115-मा.विद्या.कालीबावडी का दक्षिणी भाग 25-माध्यमिक विद्यालय धवलीबावडी 93-प्राथमिक विद्यालय उटावद 81-शास.हाईस्कूल कुवाड़ कक्ष क्रमांक 2 214-शासकीय प्राथमिक विद्यालय बडदा
2	श्री विजेन्द्रसिंग पवार	पशु चिकि.वि. अधिकारी,	उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं, जिला धार	कार्यपालक	
3	श्री विशाल जायसवाल	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी	उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं, जिला धार	कार्यपालक	
4	श्री शहजाद शेख	सहा.पशु चिकि. क्षेत्राधिकारी,	उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं, जिला धार	कार्यपालक	
5	श्री हुकुमसिंह सरवर	सहा.पशु चिकि.अ 9993531821	उप संचालक, पशु चिकि.सेवाएं, जिला धार	कार्यपालक	रिजर्व

क्र.सं.	नाम	पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी	उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं, जिला धार	कार्यपालक	रिजर्व
1	श्री प्रेमसिंह ओहरिया	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी 7049492738	वरिष्ठ कृषि विकास अधि.धरमपुरी, जिला धार	कार्यपालक	रिजर्व

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
(स्थानीय निर्वाचन) जिला धार

क्र.-1083-त्रि.पं.उप.निर्वा.-MPM-2023

मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग सोपान के आप क्रमांक एफ-53/एनएन/02/2023/पांच/3845-46 सोपान दिनांक 06.12.2023 एवं पत्र क्रमांक एफ-37/पीएन/02/2023/तीन/338-39 सोपान दिनांक 06.12.2023 द्वारा जारी निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार जिले में जनपद पंचायत डही के त्रिस्तरीय-पंचायत उप निर्वाचन 2023 (उत्तरार्द्ध) की प्रक्रिया आरम्भ होने के फलस्वरूप सफल संचालन हेतु जनपद पंचायत क्षेत्र- डही के लिए निम्नानुसार सेक्टर अधिकारियों को नियुक्त की जाती है :-

त्रिस्तरीय-पंचायत उप निर्वाचन 2023 (उत्तरार्द्ध) डही

क्र.	सं.क्र.	सेक्टर अधिकारी का नाम पदनाम एवं मो.नं.	मतदान केंद्र क्र.	मतदान केंद्र भवन का नाम
1	1	श्री ललित वास्केल, उपयंत्री, लोक स्वास्थ्य यात्रिकी, निसरपुर, जिला धार 7970068614	80	माध्यमिक विद्यालय भवन रेबड़दा का उत्तरी भाग

उपरोक्त नियुक्त सेक्टर अधिकारी अपने आवंटन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर से आदेश प्राप्ति उपरान्त तत्काल सम्पर्क करना सुनिश्चित करें।

आदेश प्राप्ति के उपरान्त संबंधित विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर से तत्काल सम्पर्क कर निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें-

अपने सम्पर्क दूरभाष/मोबाईल नम्बर कार्यालय/निवास स्थान की पूर्ण जानकारी दें।
आवंटित सेक्टर तथा मतदान केंद्रों के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करें।
प्रशिक्षण मतदान दलों को सामग्री वितरण मतदान कार्यक्रम मतदान दलों की परिवहन इत्यादि की विस्तृत जानकारी प्राप्त करें।

1. सेक्टर अधिकारी उनके साथ नियुक्त पुलिस अधिकारी के सहयोग से अपने सेक्टर में निर्वाचन की अवधि के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होंगे।

2. प्रत्येक सेक्टर अधिकारी अपनी लोकेशन निर्वाचन नियंत्रण कक्ष को देते रहेंगे तथा उसे क्षेत्र के निर्वाचन की परिस्थितियों की जानकारी समय-समय पर देते रहेंगे।

3. स्थानीय निर्वाचन कार्यालय धार के कंट्रोल रूम का दूरभाष क्रमांक 07292-222765 है।

4. वाहन का आवंटन निर्वाचन वाहन नोडल अधिकारी द्वारा आवंटित कर पृथक से सूचित किया जाएगा।

5. वाहन आवंटन उपरान्त दो दिवस में आवंटित सेक्टर के मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में उप जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला धार तथा संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को उपलब्ध कराया जावे।

6. मतदान दलों के सामग्री प्राप्ति एवं अन्य प्रक्रिया उपरान्त दलों के निर्धारित वाहन से खाना होने के पश्चात उनके मतदान केंद्रों पर सक्रिय रहने एवं निर्वाचन की समस्त तैयारी होने की ओर रिपोर्ट उसी रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत की जाना सुनिश्चित करेंगे। अगले दिवस भी दल के साथ मतदान दलों से निरंतर सम्पर्क रखा जावे।

7. पीठासीन अधिकारी/मतदान अधिकारी को आने वाली कठिनाइयों का निदान मौके पर ही तत्काल कार्यवाही करते हुए मतदान घली प्राप्ति सम्पन्न करावेंगे।

8. मतदान समाप्ति उपरान्त अपने सेक्टर के दलों का निर्धारित स्थल पर रिटर्निंग अधिकारी के निर्देशानुसार उनकी सामग्री जमा करावेंगे। अपने सेक्टर में निष्पक्ष व व्यतिरिक्त शक्तिपूर्ण मतदान कराने के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

9. पीठासीन अधिकारी एवं पोलिंग अधिकारी क्र. का प्रथम प्रशिक्षण संबंधी जानकारी पृथक से दी जावेगी। अपने जनपद पंचायत क्षेत्र के प्रशिक्षण में आप अनिवार्यतः उपस्थित रहेंगे। तथा प्रशिक्षण कि तिथि से आपको बाद में अवगत कराया जावेगा।

10. समय-समय पर अन्य निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
(स्थानीय निर्वाचन) जिला धार

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला भिण्ड,
मध्यप्रदेश

क्र.-598-स्था.निर्वा.-म. ग.द.-2023

भिण्ड, दिनांक 29 दिसम्बर 2023

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला भिण्ड म0प्र0
त्रि-स्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2023 (उत्तरार्द्ध)
विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करने के संबंध में प्रस्ताव
जिला भिण्ड (म.प्र.)

क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा /संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है ।
1	गजेंद्र सिंह भदौरिया	उपयंत्री	Public Health Engineering (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी)	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिये
2	सुरेश कुमार शर्मा	उपयंत्री	Water Resources Department (जल संसाधन विभाग)	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिये
3	डॉ संदीप सिंह	परियोजना अधिकारी	Women and Child Development (महिला एवं बाल विकास)	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिये
4	जितेंद्र तोमर	उपयंत्री	Panchyat & Rural Development (पंचायत एवं ग्रामीण विकास)	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिये
5	आर ए यादव	उपयंत्री	Water Resources Department (जल संसाधन विभाग)	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिये
6	एम के मोहोलिया	उपयंत्री	Water Resources Department (जल संसाधन विभाग)	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिये
7	एम एस कुशवाह	उपयंत्री	Water Resources Department (जल संसाधन विभाग)	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिये
8	राघ्येन्द्र पचौरी	उपयंत्री	Panchyat & Rural Development (पंचायत एवं ग्रामीण विकास)	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिये
9	राजेन्द्र जैन	उपयंत्री	Panchyat & Rural Development (पंचायत एवं ग्रामीण विकास)	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिये
10	अवधेश प्रताप सिंह तोमर	उपयंत्री	Panchyat & Rural Development (पंचायत एवं ग्रामीण विकास)	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिये

(संजीव श्रीवास्तव)

कलेक्टर

एवं जिला निर्वाचन अधिकारी

मिण्ड, दिनांक 29-12-2023

आदेश

1. च. नि. वि. / म. द. ग. / 2023 / 500

त्रि-स्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2023 (उत्तरावधि) के सुचारु रूप से संचालन हेतु पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के नियम 17 के तहत जनपद पंचायत क्षेत्र गौहद लिए श्री सजीव श्रीवासत्व कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला मिण्ड कॉलम नं. 6 में अंकित अधिकारियों को कॉलम नं. 5 में अंकित मतदान केंद्रों के लिये सेक्टर ऑफिसर नियुक्त करता है :-

स.क्र.	जनपद पंचायत का नाम	सेक्टर क्र. एवं नाम	सेक्टर क्र. एवं नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सेक्टर में सम्मिलित मतदान केंद्र क्रमांक	सेक्टर में सम्मिलित मतदान केंद्र का नाम	सेक्टर अधिकारी का नाम	पदनाम	विभाग का नाम	रिमांक
1	गौहद	1	एण्डोरी	एण्डोरी	36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47	36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47	एम एस कुशवाह	एस डी ओ	जलसंसाधन संभाग गौहद	9753830078
2	गौहद		रिजर्व	-	-	-	संदीप सिंह	परियोजना अधिकारी	महिला बाल विकास मौ	7970191174

सेक्टर ऑफिसर तत्काल अपने रिटर्निंग ऑफिसर से स

आवश्यकतानुसार उपयोग कर सकेंगे।

(सजीव श्रीवासत्व)
कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन)
जिला मिण्ड (म0प्र0)

कार्यालय- कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला भिण्ड (म.प्र.)
भिण्ड, दिनांक 25-12-2023

आदेश

क्रमांक/पञ्चनिर्वा./म.प्र./2023/ 602

त्रि-स्तरीय पंचायत उप निर्वाचन 2023 (वर्तमान) के सुचारु रूप से संचालन हेतु पंचायत निर्वाचन नियम 1985 के नियम 17 के तहत जनपद पंचायत क्षेत्र में गांव के लिए मैं सजीव श्रीवास्तव कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) जिला भिण्ड कोलम नं. 6 में अंकित अधिकारियों को कोलम नं. 5 में अंकित मतदान केन्द्रों के लिये सेक्टर ऑफिसर नियुक्त करता हूँ :-

सं.क्र.	जनपद पंचायत का नाम	सेक्टर क्र. एवं नाम	ग्राम पंचायत का नाम	सेक्टर में सम्मिलित मतदान केन्द्र क्रमांक	सेक्टर में सम्मिलित मतदान केन्द्र का नाम	सेक्टर अधिकारी का नाम	पदनाम	विभाग का नाम	सिफांक
1		1 - कुटरोली	5	14 15 16 17	प्रा.श.प्र.अ.अतिरिक्त कक्ष क्रमांक 1 कुटरोली प्रा.श.अ.क.अतिरिक्त कक्ष क्रमांक 2 कुटरोली भा0 शा0 भा0 क0 न0 -2 कुटरोली भा0 शा0 भा0 क0 न0 -3 कुटरोली	श्री गजेन्द्र सिंह गदीरिया	उपयंत्री	लो.स्वा.ग्र. विभाग मेहगांव	9826333572
2	मेहगांव	2 - गढपारा	4	18 304 305 306 307	प्रा0 शा0 भा0 किरानपुरा प्रा0शा0 भा0 गढपारा प्रा0शा0 भा0 मोहनपुरा प्रा0शा0 भा0 शंकरपुरा प्रा0शा0 भा0 भिण्डाडा	श्री सुरेश कुमार शर्मा	एस.डी.ओ.	जल.संसाधन समाप मेहगांव	9827617167,9 669962848
3		रिजर्व	-	-		श्री जितेन्द्र तोमर	उपयंत्री	ग्रा.ग्र.सेवा मेहगांव	9826237118

समस्त सेक्टर ऑफिसर तत्काल अपने रिटनिंग ऑफिसर से सम्पर्क कर उनके निर्देशन में कार्य करेंगे। रिजर्व सेक्टर

ऑफिसर को रिटनिंग ऑफिसर आवश्यकतानुसार उपयोज्य कर सकेंगे।

(सजीव श्रीवास्तव)

कलेक्टर

एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय

जिला भिण्ड (स0प0)

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्था. निर्वा.) जिला अलीराजपुर,
मध्यप्रदेश

क्र.-3260-स्था.निर्वा.-2023

अलीराजपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2023

// आदेश //

राज्य निर्वाचन आयोग भोपाल के आदेश क्रमांक-एफ-42/PN-02/2023/तीन/339 भोपाल, दिनांक 06/12/2023 के अनुसार त्रि-स्तरीय पंचायत उप-निर्वाचन 2023 (उत्तरार्द्ध) के सुचारु संचालन हेतु जनपद पंचायत कठ्ठीवाड़ा के लिए कालम नं.2 में अंकित अधिकारी को कालम नं. 3 झोन/सेक्टर क्रमांक के लिए झोनल/सेक्टर ऑफिसर नियुक्त किया जाता है। सेक्टर ऑफिसर अपने सेक्टर/झोन में निर्वाचन के दौरान आवंटित वाहन में पुलिस अधिकारी, रिजर्व मतदान दल एवं सामग्री तथा चिकित्सक अपने साथ रखेंगे।

स.क्र.	सेक्टर अधिकारी का नाम/पदनाम/विभाग/मो.नं.	झोन/सेक्टर क्रमांक	पंचायत	मतदान केन्द्र क्रमांक	मतदान केन्द्र का नाम	कुल मतदान केन्द्र
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री शैलेन्द्र डावर परियोजना अधिकारी, महिला बाल विकास विभाग अलीराजपुर मो.नं. 8085606012	1	सोरवा	81 82 83 84 85 86	शा.प्रा.शाला भवन कोस्बा फलिया सोरवा मा.शा.भवन कोस्बा फलिया सोरवा प्रा.शाला भवन दरवाड़ीया अखाड़ा फलिया सोरवा शा.मा.शाला भवन पश्चिमी भाग सोरवा शा.प्रा.शाला भवन सोरवा क्र. 1 प्रा.शा.भवन झिंझनी फलिया सोरवा	6
2	श्री अलपेश मण्डलोई या.कृ.वि.अधिकारी, कृषि विभाग अलीराजपुर मो.नं. 9752217487	2	खुन्दर कालीबेल	91 92 111	शा.प्रा.शाला भवन खुन्दर शा.प्रा.शाला भवन पिपरिया आंगनवाड़ी भवन कुहाजी फलिया करधा	3
3	श्री शैलेन्द्रसिंह डावर खण्ड स्त्रोत समन्वयक अधिकारी शिक्षा विभाग अलीराजपुर मो.नं. 9174869099	3	कालीबेल अन्धारकांच	109 110 74	ग्राम पंचायत भवन कालीबेल प्रा.शा.भवन पटेल फलिया कालीबेल शा.मा.शाला भवन अन्धारकांच उत्तरी भाग	3
4	श्री सतिश चंदेरी अतिरिक्त कार्यरत अधिकारी, पंचायत विभाग मो.नं.7247286969	-	-	-	रिजर्व	-
5	श्री चंदरसिंह वामनिया पशु चिकित्सा अधिकारी पशु चिकित्सा विभाग मो.नं. 9669515490	-	-	-	रिजर्व	-

उपरोक्तानुसार नियुक्त समस्त झोनल/सेक्टर अधिकारी अपने आवंटित झोनल/सेक्टर में निर्वाचन संबंधित कार्यवाही सम्पादित करेंगे एवं समय-समय पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी एवं संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर को रिपोर्ट करना सुनिश्चित करेंगे।

कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
(स्था.निर्वा.) जिला अलीराजपुर म.प्र.